



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 28 अप्रैल, 2021

बैशाख 8, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

संख्या 611/सत्तर-1-2021-16(74)-2018 टी0सी0

लखनऊ, 28 अप्रैल, 2021

अधिसूचना

प0आ0-459

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 15 जून, 2021 को ऐसा दिनांक नियत करती हैं जिस दिनांक को राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ स्थापित किया जायेगा।

इस अधिसूचना के जारी किये जाने के पश्चात् उक्त दिनांक से राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की अधिकारिता के अधीन आच्छादित समस्त जिलों के महाविद्यालय, इस विश्वविद्यालय से स्वतः सम्बद्ध हो जायेंगे।

उक्त धारा की उपधारा (6) के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, परीक्षा परिणामों की घोषणा हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा और तत्पश्चात् ऐसी घोषणा के आधार पर राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की उपाधि के लिये ऐसे किसी महाविद्यालय जो इस विश्वविद्यालय की स्थापना से ठीक पूर्व इस विश्वविद्यालय की अधिकारिता में आता हो, में अध्ययनरत या उसकी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र किसी छात्र को अपनी उपाधि प्रदान करने के लिये पात्र होगा।

आज्ञा से,

मोनिका एस0 गर्ग,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 611/LXX-1-2021-16(74)-2018 T.C., dated April 28, 2021 :

No. 611/LXX-1-2021-16(74)-2018 T.C.

*Dated Lucknow, April 28, 2021*

IN exercise of the powers under sub-section (1-A) of section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act no. 10 of 1973) as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974, the Governor is pleased to appoint 15<sup>th</sup> June, 2021 as the date on which Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh shall be established.

After the issue of this notification, from the aforesaid date, the colleges of all the districts covered under the jurisdiction of Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh shall be automatically attached to this University.

Under sub-section (6) of section 4 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that Doctor Bhim Rao Ambedkar University, Agra shall make necessary arrangements for declaration of examination results and after that Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh on the basis of such declaration shall be eligible to award its degree to any student of any degree college studying or was eligible to appear in the examination, for the degree of Doctor Bhim Rao Ambedkar University, Agra who falls in the jurisdiction of this University just before the establishment of this University.

By order,

MONIKA S. GARG,

*Apar Mukhya Sachiv.*